



Series JBB

SET-4

Code No. **18**

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

- དྲི་ཤོག་ལ་བར་དུ་འཁོད་པའི་ཨང་གི་ 5 དག་ཡོད་པས་ཞིབ་གཤེར་གནང་རོགས།
- དྲི་ཤོག་གི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་སློབ་པའི་ཀོཌ་ཨང་གི་དེ་འོས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ལན་འདེབས་ཤོག་གུ་ལ་བཀོད་རྒྱུ།
- ལན་བྲིས་བའི་སྡོན་དུ་ཨང་རིམ་རྣམས་རིམ་པས་བྲིས་གནང་རྒྱུ།
- སྐར་མ་ 15 བར་དྲི་བ་སློག་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བསྐྱེད་ཡོད། ལྷག་ཚེད་ 10:15 ལ་དྲི་ཤོག་བཀོད་འགྲེམས་གནང་རྒྱ་དང་། ལྷག་ཚེད་ 10:15 �ནས་ 10:30 བར་སློབ་ལྷག་ཚེས་དྲི་བ་སློག་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ལན་འདེབས་གནང་མི་ཚོག

- Please check that this question paper contains 5 printed pages.
- Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please write down the Serial Number of the question in the answer-book before attempting it.
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.



TIBETAN



Time allowed : 3 hours

Maximum Marks : 80



Section A :	གོ་རྟོགས་རྒྱུ་རྒྱུ།	Comprehension	(15 marks)
Section B :	རྒྱན་སྟོན་ཡིག་རིགས།	Writing	(25 marks)
Section C :	བདུ་སྟོན་ཉེར་མཁོ།	Applied Grammar	(15 marks)
Section D :	ཚོམ་རིག	Literature	(25 marks)

**Section; A**

གཏེ། གོ་རྟོགས་རྒྱུ་རྒྱུ། **Comprehension:** འདི་སྟོན་གསལ་ལོག་གི་དོན་བརྒྱུ་ལ་ལན་གྲིས། མོ་བཟང་ཐད་བཞོན་མོད། (15)

སྟོན་གྱི་བཞེན་རྒྱུ་ལ་ཀུན་དགའ་ལོས་སྟོན་བསྐྱབས་པས་ཁོང་གིས་དེ་ལགའ་ནི་གྲིམས་ཚེས་དེ་ལགའ་ནི་ལྟོད་ཚེ་བས་སྟོན་ལང་དག་པ་སྟེ་མ་བུའུ་བཅོམ་ལུན་ལ་ལུས་པས་ཚོད་ལུན་པ་ཚོད་ཀྱི་མ་ལགས་པའི་ཚེ་ལི་མང་སྐྱོད་པ་ལ་མཁས་སམ་གསུངས་དེ་གི་ནུ་ལུས་ལུས་པས་ཚོད་ཀྱི་ལི་མང་གི་སྐྱོད་ཀྱི་ཉ་ཅང་གྲིམས་པ་ལས་སྐྱོད་ལམ་ཉ་ཅང་ལྟོད་པ་ལས་སྐྱོད་གསུངས་དེ་གཉིས་ཀ་མ་ལགས་ཏེ་གྲིམས་སྟོད་རན་པ་ལས་སྐྱོད་པར་ལུས་པས་འོན་ཏེ་ཀྱི་སྐམས་གྱུར་དེ་དང་འདྲ་བར་གསུངས་པས་འབྲས་ལུ་མོ་བུ་བུའུ།

- 1) གྱོ་བཞེན་རྒྱུ་དང་ཀུན་དགའ་ལོ་མིང་གཉིས་ལོ་སྟོན་སྐྱོད་ནང་གང་ཟེར། 2
- 2) གྱོ་བཞེན་རྒྱུ་ལ་སྟོན་བསྐྱབས་མཁན་སྟེ་ཡིན་ནམ། 1
- 3) སྟོན་ལང་དག་པ་སྟེ་མ་བུའུ་བཅོམ་པའི་རྒྱ་མཚན་གང་། 2
- 4) བཅོམ་ལུན་ལ་ལུས་གང་ལུས་སམ། 2
- 5) སངས་རྒྱུས་ཀྱིས་གྱོ་བཞེན་རྒྱུ་ལ་གང་གསུངས། ཁོས་ལན་གང་ལུས་སམ། 2
- 6) ལི་མང་གི་སྐྱོད་ཀྱི་ཉེན་པ་དང་ལྟོད་པ་ཞེས་པའི་དོན་གང་ཡིན་ནམ། 1
- 7) ལི་མང་གི་སྐྱོད་ཅེས་པའི་རྒྱུད་གང་ལ་གོ་འམ། 1



- १) གྲིམས་ལྟོད་རབ་པ་ཞེས་ན་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཟེར། 1
- ༢) ལྗོངས་རྒྱུ་དུས་སེམས་ཇི་འདྲ་ཞིག་ལ་གནས་དགོས་སམ། 1
- ༡༠) སེམས་གྲིམས་ལྟོད་མཉམ་ན་འབྲས་ལུ་གང་ཐོབ། 2

**Section; B - 25**

༡) Letter writing      གཏོང་ཡིག་གང་རུང་ཞིག་བྲིས། 8

- ༡) རང་གི་དགོ་ཆུན་རྣམས་ལ་གསོལ་ཚིགས་སྟབས་པདེར་ཐེབས་རྒྱུའི་མགོན་བརྟེན་ཞིག
- ༢) ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་ལ་དགོ་ཆུན་གྱི་ལས་ཀའི་ཚེད་སྟུན་ལུ་ཞིག
- ༣) ཤེས་རིག་པར་ཁང་ལ་སློབ་དེབ་མཁོ་གཏོང་ཡོང་བའི་ཡི་གེ་ཞིག

Essay writing:      གང་རུང་ཞིག་ལ་འབྲི་ཚུལ་བྲིས། 10

- ༡) བ་མ་དང་དགོ་ཆུན་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་སྒྲོལ།
- ༢) ལྷོན་པ་སངས་རྒྱལ་པའི་གནས་ཚུ་ཚེན་ཡིན་པའི་སྒྲོལ།
- ༣) འཁོར་ལུག་སྤྱད་སྒྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲོལ།

**Translation**      བོད་རྒྱལ་དུ་བརྒྱུར་དགོས། 7

I am sometimes asked whether I am religious, and I find it difficult to give an answer. My answer is it depends on what you mean by religion. If you mean ritual or repetition of something that you accept merely because great people have said it before you, then perhaps I am not religious. But I think true religion is a search for truth. It is searching for what is the best within yourself and trying to make it better. Swami Vivekananda said of education that it is not what a man knows but what he becomes, what he is, that is what education has to achieve.



**Section; C**

ག། Grammar (Sumchupa) ལྷ་མཚན་པའི་དྲི་བ་ལ་ལན་གྲིས། ཐོབ་ཡང་སོ་སོའི་ཐད་བཞོད་ཡོད། (15)

- ༡། གང་རྒྱའི་སྤང་གྲུབ་ཚུལ་ཚིག་སྤང་སོ་སོར་དཔེར་བརྗོད་གྲིས། 3
- ༢། དེ་རྒྱལ་ལ་ཚུ་བའི་དབྱེ་བ་གང་དག་ཡོད་དམ། 2
- ༣། བདག་རྒྱལ་སྤང་གང་དག་ཡོད་དམ། 1
- ༤། རི་རྒྱ་དགར་བ་ལ་འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་གྲིས། 1
- ༥། དང་རྒྱའི་སྤང་གྲུབ་ཚུལ་ དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་གྲིས། 2
- ༦། སྤང་རང་དབང་ཅན་དུ་གྱུ་བོ་གང་དག་ཡིན། 2
- ༧། གང་འདྲ་ཞིག་ལ་མངོན་བརྗོད་ཟེར་རམ། 1
- ༨། མངོན་བརྗོད་ཤེས་ན་ཕན་པ་གང་ཡོད་དམ། 1
- ༩། ཤེས་རབ་ལྷ་མོ་ ལྷ་རྒྱལ་མ་ ལྷའི་མིང་གི་མངོན་བརྗོད་ཡིན་ནམ། 1
- ༡༠། མིང་གཅིག་དོན་མང་ལ་འཇུག་པའི་དཔེ་མཚན་ཞིག་གྲིས། 1

**Section; D** ~ 25

ང། Prose; ལྷ་མཚན་པའི་དྲི་བ་ལ་ལན་གྲིས། ཐོབ་ཡང་སོ་སོའི་ཐད་བཞོད་ཡོད། (10)

- ༡། ཚད་མེད་བཞི། ལམ་ལྷ་སོ་སོར་ངོས་འཛིན། 2



- १) དམ་པ་དུལ་བའི་དཔེ་གང་དག་བསྟན་ཡོད་དམ། 1
- २) རླུས་སུ་དམ་པའི་མཚན་ཉིད་གསལ་བར་བྲིས། 3
- ॢ) ལམོར་ལོའི་བཞིའི་གདམས་རག་པོས་འཛིན། 3
- ༥) ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་དང་བཤེས་སྒྲིབ་མཛད་པོ་པོས་འཛིན། 1

ཅ) **Poetry:** ལྷན་རག ཐོབ་ཨང་ཐད་བཀོད་བྱས་ཡོད། (10)

- ༡) བཛོད་བྱ་གང་རུང་ཞིག་ལ་སྐྱུར་བའི་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྐྱོན་རག་ཅིག་བྲིས། 5
- २) ལྷན་རག་གི་ལྷན་ཚིགས་བཅད་ལྷག་སྐྱེལ་མ་གསུམ་གྱི་དོན་བྲིས། 3
- ३) ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་སྐྱོན་རག་གི་ལྷན་ཟེར་རམ། 2

ཆ) **Rapid reading:** མཛད་ཚུལ་ལས་རང་མོས་ལྷ་ལ་ལན་བྲིས། 5x1=5

- ༡) གཞུང་ཚེན་བཀའ་པོད་ལྷ་གང་དག་ཡིན་ནམ། 1
- २) འགོང་ས་མཚོག་གིས་སྐྱོབ་གཉེར་ཇི་ལྟར་གནང་ཡོད་དམ། 1
- ३) བོད་ཀྱི་བྱིས་མཚོས་རྒྱལ་ཁབ་གང་དག་ཡོད་དམ། 1
- ॣ) རིག་གནས་རུང་བ་ལྷ་གང་དག་ཡིན་ནམ། 1
- ༥) པོ་ཏ་ལ་དང་ ལོར་སྤྱིང་ཁ་གཉིས་སུས་བཞེངས་སམ། 1
- ༦) ཀམ། བུ། བོདྱི་སུ། བཅས་ཚུལ་ས་བོད་སྐད་དུ་བྲིས། 1